

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19—मार्च 25, 2016 (फाल्गुन 29, 1937)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19—MARCH 25, 2016 (PHALGUNA 29, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 25 फरवरी 2016

सं. ओ.दो. 6657/2015—कार्मिक.डी.ए.—4—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सर्वेश कुमार उमरांव, उप कमाण्डेन्ट (इरला-6657), 93 बटालियन, केरिपुबल, एल.डी.ए कॉलोनी, आशियाना, लखनऊ (उ.प्र.) ने दिनांक 01/02/2016 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01/02/2016 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

ए. वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 29 फरवरी 2016

सं. ओ.दो. 3983/14—कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. ढोक अमित अजय, चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) इरला—10370, आर.टी.सी, केरिपुबल, लातुर, द्वारा दिनांक 15/02/2016 (अपराहन) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 15/02/2016 (अपराहन) से हटाया जाता है।

ए. वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.—3689/2016—कार्मिक—डी.ए.—1—भारत सरकार ने ब्रिगेडियर(सेवानिवृत्त) विरेन्द्र सिंह ठाकर को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में रु० 37,400—67,000/— के वेतन बैंड (पी०बी०—4) तथा ग्रेड वेतन रु० 8,900/— में, पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पांच वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति के आधार पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि इनकी यह पुनर्नियुक्ति केन्द्र सरकार के सिविल पदों के लिए लागू अधिवर्षिता आयु अर्थात् 60 वर्ष तक के लिये होगी।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस उप—महानिरीक्षक, के०रि०पु०बल० का कार्यभार दिनांक 26/02/2016 (पूर्वाहन) को ग्रहण कर लिया है।

ए. वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 1 मार्च 2016

सं. ओ.दो. 4014/15—कार्मिक डीए—6—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ० कुहु चटर्जी, चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट), ईरला 10518, संयुक्त अस्पताल, के०रि०पु०बल, रामपुर द्वारा दिनांक 18/02/2016 (पूर्वाहन) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 18/02/2016 (पूर्वाहन) से हटाया जाता है।

ए.वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली—110003, दिनांक 26 फरवरी 2016

सं० ई—16013/उमनि—प्रति०/भा.पु.से./2015/कार्मिक—2/256—राष्ट्रपति, श्री दयाल गंगवार, भा०पु०से० (उडीसा : 1998) को प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 25.02.2016 (पूर्वाहन) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली में उप महानिरीक्षक पद पर वेतनमान—4 रु० 37,400—67,000/—, ग्रेड पे—रु० 8,900/—में पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/के०सु०ब

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो)

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2014

सं.ए— 12018/7/2010—प्रशा.—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रपति निम्न अधिकारियों को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में ग्रेड वेतन रुपये 5400/— के साथ वेतन बैंड 3 (रु. 15600—39100/—) में नीचे तालिका—4 में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) के पद पर नियुक्त करते हैं—

क्र. सं.	नाम	विधि	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री आर० के० सेनापति	पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति	23.09.2013 (पूर्वाह्न)
2.	कैप्टन आशुतोष वशिष्ठ	पुनर्नियोजन	07.10.2013 (पूर्वाह्न)

क्र. सं.	नाम	विधि	नियुक्ति की तिथि
3.	श्री गुरविंदर सिंह	पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति	30.10.2013 (पूर्वाह्न)
4.	श्री एस एम एफ रहमान	पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति	21.11.2013 (पूर्वाह्न)

राखी साधु
उप निदेशक (कार्मिक)

सं.— ए— 32016/5/2009—प्रशा. I—राष्ट्रपति नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में निम्नलिखित सहायक सुरक्षा आयुक्तों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से ग्रेड वेतन रुपये 6600/— व रु. 2000/— के विशेष वेतन सहित वेतन बैंड—3 (रु. 15600—39100/—) में सुरक्षा उपायुक्त (नागर विमानन) के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

क्र सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	प्रभावी तिथि
1.	संजय शर्मा	19.09.2013
2.	एम० टी० बेग	26.05.2014

राखी साधु
उप निदेशक (कार्मिक)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई—85, दिनांक 25 फरवरी 2016

सं. पीडी/2(8)/2015—भर्ती—IV/2484—राष्ट्रपति, श्री विकास शंभुनाथ कुरारीया, को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में तकनीकी अधिकारी श्रेणी 'सी' के पद पर रु. 15600—39100 + 5400 (ग्रेड पे) के वेतनमान में 1 फरवरी, 2016 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 29 फरवरी 2016

सं. पीडी /7(6)/2015/भर्ती—IV/(एसओ/ई)/ईटीजी/2518—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के डॉ. मलय कुमार नायक, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'डी' पे बेंड पीबी—3 रु. 15600 — 39100 + ग्रेड पे रु. 6600 को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'ई' के पद पर पे बेंड पीबी—3 रु. 15600 — 39100 + ग्रेड पे रु. 7600 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में जुलाई 01, 2014 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई—85, दिनांक 3 मार्च 2016

सं. पीडी/4(6)/2007—भर्ती—III(खंड II)/2016/2697—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री वीरेंद्र हीरानंद गुर, आशुलिपिक श्रेणी—I, को दिनांक 01.02.2016 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9300—34800 के वेतन बैंड—2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4600/— में इस अनुसंधान केंद्र में नीजि सचिव (गैर—सचिवलयीन) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई—40001, दिनांक 3 मार्च 2016

सं. एईसी—1 (1)/16/3093—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) का गठन हेतु अधिसूचित करने के संबंध में जारी इस विभाग की दिनांक 2 नवंबर 2015 की अधिसूचना सं. एईसी—1(1)/15/14902 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री के. एन. व्यास,

निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और श्री विनोद कुमार ठकराल, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उर्वरक विभाग को दिनांक 2 मार्च 2016 से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा आयोग के नये सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं ।

अतः वर्ष 2016 की शेष अवधि हेतु परमाणु ऊर्जा आयोग (ईसी) का गठन निम्नानुसार होगा :

1.	डॉ. शेखर बसु सचिव, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग	—	अध्यक्ष (पदेन)
2.	श्री नृपेन्द्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव	—	सदस्य
3.	श्री अजित कुमार डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार	—	सदस्य
4.	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा मंत्रिमंडल सचिव	—	सदस्य
5.	डॉ. एस. जयशंकर विदेश सचिव	—	सदस्य
6.	श्री रतन पी. वाटल वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय)	—	सदस्य
7.	श्री विनोद कुमार ठकराल विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उर्वरक विभाग	—	सदस्य (वित्त)
8.	डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन पूर्व अध्यक्ष, ईसी	—	सदस्य
9.	प्रो. पी. रामा राव पूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	—	सदस्य
10.	डॉ. अनिल काकोडकर पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग	—	सदस्य
11.	डॉ. आर. बी. ग्रोवर पऊवि होमी भाभा चेयर प्रोफेसर	—	सदस्य
12.	डॉ. के. कस्तूरीरंगन, पूर्व अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग एवं पूर्व सदस्य, योजना आयोग	—	सदस्य
13.	श्री के. एन. व्यास निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र	—	सदस्य

अरुण श्रीवास्तव
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

मुंबई-400001, दिनांक 2 मार्च 2016

सं. 6(2722)/2016-प्रशा./3052—अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा बीएआरसीएफ, कलपाक्कम के सहायक कार्मिक अधिकारी [रु. 9,300—34,800 (पीबी-2) और ग्रेड वेतन रु. 4,800] श्री एम.एन. षाजू को दिनांक 15 फरवरी 2016 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में अनुभाग अधिकारी [रु. 9,300—34,800 (पीबी-2) और ग्रेड वेतन रु. 4,800] के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

दिनांक 3 मार्च 2016

सं. 6(2171)/95-प्रशा./3110—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के निजी सचिव (पीबी- 3 रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु + 5400) श्री ए. बी. पटेल को दिनांक 10 फरवरी 2016 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में अगले आदेश होने तक उसी विभाग में प्रधान निजी सचिव (पीबी-3 रु. 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रु. 6600) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के.पी.एस. पिल्लै
अवर सचिव

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 18 फरवरी 2016

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2450)/2016-भर्ती/175—निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्रीमती मिनी विनोद, सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी), भापअकेंद्र, मुंबई को दिनांक 22/01/2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस निदेशालय में वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 और ग्रेड वेतन रु. 4800/- में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. जगन मोहन राव
प्रशासन अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई - 400 094, दिनांक 24 फरवरी 2016

सं. भापाबो/भर्ती/1(15)-मणुगुरु/2016/1101—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, सहायक लेखा अधिकारी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पाकम, श्री वी. विवेकानंदन (पीबी - 2 रु. 9300 - 34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800) को दिनांक 05.02.2016 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड - रु. 9300 - 34800 + ग्रेड वेतन रु. 5400 में भारी पानी संयंत्र, मणुगुरु में लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

एलएलपी नियम 2009 और निम्नलिखित एलएलपी के संबंध में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 मार्च 2016

सं. आरओसी(दिल्ली)/सित./नियम 37(3)पब्लि./1548—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37 की उपनियम (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है की इस तारीख से तीस दिन के अवसान पर निम्नलिखित एलएलपी के नाम इन के प्रतिकूल काल दर्शित न किये गए तो रजिस्टर से काट दी जायगी और निम्न एलएलपी विघटित कर दी जायगी।

क्र.सं.	सीआईएन	एलएलपी-नाम
1	AAB-6939	वेलक्थोर लाइफ साइंस
2	AAB-8813	ग्लोबल वेंटिस
3	AAB-7294	निम्बल ब्रेन्स ट्रेनिंग
4	AAB-7447	बिज़िकोन इन्फोटेक
5	AAB-9342	मॉडेलमा फैशंस
6	AAC-0953	वीएमएस एडुनेट
7	AAB-8481	वे-जीएल मैनेजमेंट सर्विसेज
8	AAB-9306	डोरबेल टेक सर्विस

क्र.सं.	सीआईएन	एलएलपी—नाम
9	AAB-9031	इंडो रमा रिन्यूवेबल्स वासपेठ
10	AAB-0003	क्राफ्टबुज्जार हैंडमेड डिजाइन्स
11	AAA-0289	डेल्ही होली डे रिसॉर्ट्स
12	AAA-5213	मैगनेटबिज़नेस वेंचर्स
13	AAA-5462	कारखाना ऑटोमोटिव बिज़नेस सोलूशन्स
14	AAA-6019	ग्रीन्ट्री प्रोडक्ट्स सर्विसेज
15	AAA-7488	निस्वेय डिजिटल मार्केटिंग
16	AAA-7511	एक्सट्रीम एरीना साउथ कैंपस
17	AAA-5882	अकादमी फॉर आईटी प्रोफेशनल्स
18	AAA-5655	सेनसेक्स फिनकाप सोलूशन्स
19	AAA-6009	इंट्रानेट नेटवर्क्स सोलूशन्स
20	AAA-4856	एमटी कैनवास सोलूशन्स
21	AAA-7741	चॉकलेट हाट इंडिया
22	AAA-9093	एक्सेस एडुबूक्स इंडिया
23	AAA-2219	काइट कंसल्टिंग
24	AAA-5326	ट्रिनिटी सोलैंग इंटरनेशनल
25	AAA-0560	वनस्टॉप टीचर्स प्लेसमेंट सर्विसेज
26	AAA-8662	यशा वेअर्स
27	AAA-2023	एवरशाइन स्टोनविला
28	AAA-6326	हर्कुलस सॉफ्टवेयर सोलूशन्स
29	AAA-9319	अड्डुको ट्रेडर्स
30	AAA-0483	लूथरा लूथरा लॉ ऑफिसेस
31	AAA-6967	पिंग क्रिएटिव टेक
32	AAA-6124	नाइसा ट्रेंड्स
33	AAA-3104	अलाइड नैनोटेक्नोलॉजीज यूनिवर्सल
34	AAA-3723	ऐ एम माइंड पावर सोलूशन्स
35	AAA-4589	मास आर्किटेक्ट्स
36	AAB-0025	डाइवर्स होटल्स
37	AAB-0212	लेस एडुटोरस ट्रेवल इंटरनेशनल

क्र.सं.	सीआईएन	एलएलपी—नाम
38	AAB-0321	अंश एडवाइजरी पार्टनर्स
39	AAB-0364	पाई डक्ट्स
40	AAB-2327	स्पाक मिनरल्स सर्विसेज
41	AAB-3400	एकेएस इंफ्रामार्ट कंसल्टिंग
42	AAB-3604	सारण्याहॉस्पिटैलिटी
43	AAB-4050	इन्डिगलोबे कॉर्पोरेट सोल्यूशन्स
44	AAB-4459	धिरानी इंजीनियरिंग
45	AAB-6183	डिसिशन एनालिटिक्स लैब्स
46	AAB-6777	न्यू टेक रेफ्रिजरेशन
47	AAA-4394	तुलिप एक्सिम कारपोरेशन एलएलपी
48	AAB-6102	सुदेव इन्फोटेक एलएलपी
49	AAA-5053	ज़ार लिमोजीन सर्विसेज एलएलपी
50	AAA-8625	मेडीट्रेन फार्मा बिज़नेस स्कूल एलएलपी
51	AAB-0895	मैमोस्क्रीन इंडिया एलएलपी
52	AAB-7531	पेरिस कन्फेक्शनरी एलएलपी
53	AAA-0179	पाई क्रिएटिव डिज़ाइन स्टूडियो एलएलपी
54	AAA-8208	गीक्स सपोर्ट आईटी सर्विसेज एलएलपी
55	AAC-1682	वेल्थ एशिया एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी
56	AAA-6871	आरएसबी पोर्टफोलियो एडवाइजर्स एलएलपी

तिआइनला
(उप कम्पनी रजिस्ट्रार)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 29 फरवरी 2016

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

क्र. सं.	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1.	19708	सरबजीत कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड
2.	32613	वरुन टैक्नीकल एंड कन्सलटैन्सी सर्विसिज लिमिटेड
3.	26680	काबरा इम्पैक्स लिमिटेड
4.	33596	ट्रेस एन टैन वैन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	26766	जैसिका रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
6.	31127	स्वामी परमानंद कन्जाईमैन्ट एजेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
7.	16553	एम एम फाईनेन्सीयल कन्सलटैन्ट्स लिमिटेड
8.	37506	प्राईम कुजीन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	37070	क्वीन्स कॉलेज प्राईवेट लिमिटेड
10.	30993	मॅडोक्स फंड्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	33677	मुद्रा फिनकेयर सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
12.	35097	एस एंड एस एनवरोटेक प्राईवेट लिमिटेड
13.	19836	केसरीयाजी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
14.	34998	जी आई एस स्टैन्डर्ड्स एंड टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
15.	31911	फैन्टास्टीक वैब सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
16.	33118	राईट ट्रेक एंटरटेनमैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	29464	ग्रीन चैनल रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	34029	बायो एज लाईफ साईंसिज प्राईवेट लिमिटेड
19.	34578	अल्टीमेट स्पीरिट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	30957	के पी टाउनशिप एंड कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	34316	करोमो सूमिट रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड

ह./— अपठनीय
सह रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 ओर निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर, दिनांक 1 मार्च 2016

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
1	U63023MP1982PTC001924	स्टोरेज सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
2	U63020MP2013PTC030941	चेम्बरिंग फूड एन्ड कोल्ड स्टोरेज प्रायवेट लिमिटेड
3	U72200MP2012PTC029019	मौले साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
4	U52590MP2011PTC025164	आनजेट मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
5	U72200MP2013PTC031110	प्रेबेन्डिंग आईटी सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
6	U80301MP2008PTC021436	विजीगुनो एडुकोम प्रायवेट लिमिटेड
7	U80211MP1998PTC013211	सीतू एजुकेशन सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
8	U28129MP2007PTC019806	प्रकाश क्लोजर्स प्रायवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
9	U45200MP2007PTC019625	साधना आलिआ बिल्डर्स एन्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
10	U67120MP2009PTC021498	एम पी कैरेन्सी एन्ड डेरीवेटिव्स प्रायवेट लिमिटेड
11	U92190MP2008PTC020811	ओम शान्ती एन्टरटेनमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
12	U74140MP2002PTC014926	कोटिल्य स्टारटिक प्रायवेट लिमिटेड
13	U01222MP1998PTC013071	सिमरन चिक्स प्रायवेट लिमिटेड
14	U24233MP2007PTC019573	आयु मार्ट प्रायवेट लिमिटेड
15	U52590MP2011PTC026259	रिएक्ट मल्टीलेवल मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
16	U27200MP2008PLC020714	एसआर फैरो ड्राबुआ लिमिटेड
17	U15400MP2011PTC027131	जी लाईफ फुटस एन्ड मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
18	U63020MP2011PTC027298	सेफरोन वेयरहाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड
19	U52590MP2011PTC025190	देवयानी मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
20	U45200MP2013PTC030844	शार्इन स्टार इन्फ्रा सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
21	U74120MP2014PTC032580	एमकेएसबी इन्फोसर्विसेज कन्सलटिंग प्रायवेट लिमिटेड
22	U27101MP1986PTC003475	रतलाम फैरो एलायज प्रायवेट लिमिटेड
23	U22120MP2010PTC024906	प्राईम इंडिया पब्लिकेशन्स प्रायवेट लिमिटेड
24	U22120MP2011PTC027157	जी लाईफ मीडिया नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड
25	U24233MP2011PTC027078	ईशवरी लाईफसाईंस प्रायवेट लिमिटेड
26	U45200MP2013PTC030761	टीसीके इन्फ्राहाईट प्रायवेट लिमिटेड
27	U01403MP2012PTC028294	शाद एग्रो प्रायवेट लिमिटेड
28	U70101MP2012PTC027694	पाकीजा बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड
29	U52599MP2012PTC029719	पिनाकल ट्रेडर्स प्रायवेट लिमिटेड
30	U45400MP2014PTC032567	ए व्ही लक्सरिया देव एन्ड कॉलोनाईजर प्रायवेट लिमिटेड
31	U74999MP2012PTC027950	सेवन कीएशन एजुकेशन एन्ड सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
32	U52599MP2013PTC031198	अंजली ट्रेड विंग प्रायवेट लिमिटेड
33	U15310MP2010PTC023380	श्रीहरिजी एग्रोटेक प्रायवेट लिमिटेड
34	U24233MP2001PTC014518	दीपा हर्बल्स प्रायवेट लिमिटेड
35	U27203MP2011PTC025142	राधे एल्युमीनियम प्रायवेट लिमिटेड
36	U27203MP2011PTC025141	डिवाइन एल्युमीनियम प्रायवेट लिमिटेड
37	U70100MP2011PTC025699	सुपर देवकाने एन्ड लेण्ड डवलपमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
38	U74200MP2012PTC028316	एसपुटे कन्सलटेन्सी प्रायवेट लिमिटेड
39	U72900MP2008PTC021467	अनन्त सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
40	U70100MP2010PTC024712	सतपुडा इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
41	U80300MP2011PTC025568	टीएमजे एजुकेशन प्रायवेट लिमिटेड
42	U52310MP2008PTC020290	तरु फार्मा प्रायवेट लिमिटेड
43	U93000MP2007PTC033254	ए-1 स्पेशलाइड सर्विसेज एन्ड सप्लायर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
44	U92100MP2012PTC027766	लेनर्ड केबल एन्ड मीडिया प्रायवेट लिमिटेड
45	U72200MP2008PTC020980	कमल इन्फोमीडिया प्रायवेट लिमिटेड
46	U22210MP2009PTC021631	एक्युप्रिन्ट ऑफसेट प्रायवेट लिमिटेड
47	U74140MP2008PTC020299	कोलोनेल्स कारपोरेट मनेजमेन्ट सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
48	U52599MP2002PTC015259	गगन मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
59	U01403MP2013PTC030469	जैन सीडस प्रायवेट लिमिटेड
50	U24230MP2015PTC034071	संस्कार आयुवेदा प्राडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
51	U45200MP2012PTC028455	बजरगं मल्टीडिजिटल इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
52	U24232MP2003PTC015534	फार्मा इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड
53	U32100MP2013PTC030568	त्रिवेदी रिसर्फसिंग प्राडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
54	U05110MP1988PTC004790	सौरभ मर्केन्डाईज प्रायवेट लिमिटेड
55	U16003MP1981PTC001882	दुलारा टोबाको प्राडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड

ह./— अपठनीय
उप रजिस्ट्रार का कार्यालय
मध्य प्रदेश

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2016

सं. आर ओ सी/नियम 37(4)एलएलपी/2016—सीमित दायित्व भागीदारी नियम 2009 के अन्तर्गत नियम 37(3) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सीमित दायित्व भागीदारी का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काट दिया गया है।

क्र. सं.	एलएलपी नंबर	एलएलपी का नाम
1	3027	मेसर्स श्री जगदम्बा सोलर एनर्जी एलएलपी
2	0293	मेसर्स दिनेश रियलकॉन एलएलपी
3	3207	मेसर्स जगदम्बा एनर्जी एलएलपी
4	2910	मेसर्स कुमार इको पॉवर एलएलपी
5	8166	मेसर्स एमएच कोल बेनेफिकेशन एलएलपी
6	3182	मेसर्स शिवनाथ एनर्जी एलएलपी
7	0445	मेसर्स श्री जगदम्बा मिनरल्स रिसोर्सस् एलएलपी

क्र. सं.	एलएलपी नंबर	एलएलपी का नाम
8	2918	मेसर्स विनय ग्रीन एनर्जी एलएलपी
9	0240	मेसर्स वृंदावन रियलकॉन एलएलपी
10	3000	मेसर्स यमुना ऊर्जा एलएलपी

ह./— अपठनीय
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज—सह—
शासकीय समापक
छत्तीसगढ़

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. मांगोला फिल्मस् प्रॉडक्शन प्राइवेट लिमिटेड U74999GA2007PTC005315 के विषय में

पाण्जी-403001, दिनांक 26 फरवरी 2016

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. मांगोला फिल्मस् प्रॉडक्शन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

विष्णु पांडुरंग काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 29 फरवरी 2016

सं. : कर./प0.बं0./एफटीई/560/2016— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 80 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं।

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
1	U60231WB2012PTC181209	पेटूनिया लोजीस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U72400WB2002PTC094449	आरडीस्लाश कम्प्युटर प्राइवेट लिमिटेड
3	U74999WB2012PTC183365	देवकृपा शॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U74999WB2012PTC184617	बीडीजी हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U80901WB2013PTC196559	क्वार्क स्किल डेव्लोपमेंट इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
6	U70109WB2012PTC182793	एसजीके प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
7	U29253WB2012PTC180357	ब्रेथपिओर इक्यूपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
8	U24232WB1993PTC058645	प्रसाद फार्मासीयूटिकल्स एंड सर्जिकल वर्क्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
9	U52190WB2012PTC175430	पाँचकोटा एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
10	U51909WB2010PTC144200	अलिव सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U74900WB2013PTC195100	परिवेश डीलमार्क प्राइवेट लिमिटेड
12	U51101WB2009PTC131970	ग्रेस डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U51101WB2010PTC144207	सूर्य कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
14	U33111WB2014PTC201758	कमलात्मिका इंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड
15	U45400WB2011PTC163371	ग्रीनसिटी इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
16	U92412WB2014PTC201320	अब्सोलुट इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U70102WB2013PLC193341	दुबचूरुरिया सिटी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
18	U65923WB2011PLC164816	गौती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
19	U27310WB2011PTC166186	महावीर स्यनेरजी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
20	U70101WB1988PTC045024	ब्रिन्दावन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
21	U80302WB2008PTC123393	बंगाल ट्रेनिंग अकादेमी प्राइवेट लिमिटेड
22	U51420WB2004PTC098885	न्यूटेक कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
23	U45200WB2013PTC193017	एल.के.आर रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड
24	U63022WB2003PTC096502	बी जे मल्टीपर्सस हीमघर प्राइवेट लिमिटेड
25	U74900WB2013PTC196193	नेटकॉल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
26	U45400WB2012PTC183978	एवर राइस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
27	U45400WB2012PTC174250	गणेशवाणी हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U51909WB2009PTC139316	झंकार डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U51909WB1997PTC085285	प्राइड कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U51909WB2009PTC133684	टॉपस्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U74900WB2012PTC187734	एकाक्ष फैशनस प्राइवेट लिमिटेड
32	U74910WB2010PTC154714	ब्लू रोज़ मेनपावर एंड सेक्युरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
33	U70102WB2013PLC192513	फ्रेथ रियलकोन इंडिया डोमेस्टिक कंपनी लिमिटेड
34	U51909WB2010PTC143139	भोलानाथ ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
35	U51909WB2008PTC126945	सिबर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
36	U70102WB2013PTC193873	पीएनएस देवकोण प्राइवेट लिमिटेड
37	U45201WB2005PTC103994	यूनीकोण टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U70102WB2013PTC190518	रेडको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
39	U72200WB2005PTC104648	ओडिसी औटसोरसिंग प्राइवेट लिमिटेड
40	U74900WB2013PTC194917	नोर्मास कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
41	U67200WB2007PTC119720	यूनाइटेड सर्विसलिंग इन्शुरेंस प्राइवेट लिमिटेड
42	U45400WB2013PTC196303	जन्मभूमि निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
43	U74999WB2012PTC185040	निर्वाणम कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
44	U74999WB2012PTC185042	रविलोचनाह वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
45	U45400WB2013PTC196304	मैनाक रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U74900WB2012PTC186781	प्राणदाह डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U36911WB1996PTC079495	गरुडा चेन्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U74999WB2012PTC185041	प्रमोडानह गूड्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U60230WB2011PTC158143	सेदरवुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
50	U27107WB2007PTC112477	राधिका मेटल्लरजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
51	U13100WB2012PTC184017	एबीटी मार्निंग प्राइवेट लिमिटेड
52	U51909WB2006PTC112223	यूनिक एम्पोरीउम प्राइवेट लिमिटेड
53	U05004WB1994PTC066260	यूनिक एक्वा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
54	U70109WB2011PLC170244	आस्था रियलदेव (इंडिया) लिमिटेड
55	U40103WB2009PLC137066	एलीडियन एनर्जी लिमिटेड
56	U51109WB2008PLC127001	फार्ईस्ट ओवरसीस लिमिटेड
57	U45400WB2011PTC161330	केएलसी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U74140WB1946PTC013659	इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
59	U18109WB2013PTC197457	टिंकूरिकू ड्रेससेस प्राइवेट लिमिटेड
60	U14101WB2006PTC110908	डाइमेनसनल कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड
61	U63023WB1988PTC044855	मुंगिपा लिफ्टर्स एंड वेयरहाउसर्स प्राइवेट लिमिटेड
62	U72900WB2008PTC130127	इविका सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U51909WB2011PTC167578	फेयरलिक वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
64	U51909WB2011PTC165517	गंगाधाम कोमोडील प्राइवेट लिमिटेड
65	U51909WB2011PTC165518	जटाधारी विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
66	U51909WB2011PTC166682	पाँचबूट मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
67	U51909WB2011PTC167580	मैक्सवेल विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
68	U51909WB2011PTC165521	करनिमाता विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
69	U51909WB2011PTC166120	प्रिसटाइन मर्केडाइज प्राइवेट लिमिटेड
70	U45400WB2013PTC196127	टीएम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
71	U28112WB2011PTC156526	नवरतन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
72	U51909WB2007PTC114643	गुजराल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
73	U51909WB2012PTC179721	अनुनेक्ट ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
74	U24295WB1991PTC051890	मिरियाद टेकनो प्राइवेट लिमिटेड
75	U30008WB1988PTC044255	तास इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
76	U27310WB2009PTC138395	ब्राइटएनरजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
77	U72300WB2014PTC202787	डाइपफोल कोमपु सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
78	U22219WB1952PTC020708	कल्पना प्रेस्स प्राइवेट लिमिटेड
79	U74140WB1982PTC035061	पीकाय मनेजमेंटस प्राइवेट लिमिटेड
80	U45203WB2007PTC113275	हेप्पी मल्टीकोण प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधुरी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 की है और निम्नलिखित कम्पनीयों के मामले में

बेंगलूरु, दिनांक 01 मार्च 2016

सं आरओसी—बेंगलूरु/560(5)/एफटीई—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) अनुसार एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनीयों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं ।

क्र. सं.	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	U72200KA2006PTC040843	डिसीडैन सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
2	U40300KA2012PTC065081	बिसीलूमनि एनर्जी प्रैवेट लिमिटेड
3	U55100KA2008PTC048552	मनोर हास्पिटालिटीस प्रैवेट लिमिटेड
4	U45202KA2012PTC063277	गाहलोट इन्जिनियरिंग एण्ड पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
5	U45205KA2012PTC063333	बीएमएन बिल्डर्स —कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
6	U72200KA2007PTC043939	कोर इण्टेन्ट सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड

कीर्ति तेज एन.
उप कम्पनी पंजीयक
कर्नाटक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 25th February 2016

No. O.II. 6657/2015-Pers.DA.4—Consequent on acceptance of his notice of voluntary retirement from Government service by the competent authority, Shri Sarvesh Kumar Umrao, Dy. Commandant (IRLA-6657) of 93 Bn, CRPF, L.D.A Colony, Ashiyana, Lucknow (UP) has relinquished his post on 01/02/2016(AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 01/02/2016(AN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers) Dte

The 29th February 2016

No. O.II. 3983/14-Pers-MOs—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr. Dhok Amit Ajay, Medical Officer/Assistant Commandant, IRLA 10370 of RTC, CRPF, Latur has relinquished the charge of his post in the afternoon of 15/02/2016. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force wef. 15/02/2016 (AN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers)

No. O.II-3689/2016-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Brig (Retd) Birender Singh Thakar as Deputy Inspector General (DIG) in CRPF in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,900/- on re-employment basis for a period of 05 years subject to condition that his re-employment will be upto the age of superannuation with reference to civil Posts under the Central Government i.e. 60 years in CRPF.

02. The officer accordingly took over the charge of the post of Deputy Inspector General, CRPF on the forenoon of 26/02/2016.

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers)

The 1st March 2016

No. O.II. 4014/15-Pers-DA-6—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr. Kuhu Chatterjee, Medical Officer (IRLA -10518) of CH, CRPF, Rampur has relinquished the charge of her post in the forenoon of 18/02/2016. Accordingly, her name is deleted from the rolls of the Force wef. 18/02/2016 (FN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 26th February 2016

No. E-16013/DIG-DEP/IPS/2015/Pers-II/256—The President is pleased to appoint Shri Dayal Gangwar, IPS (OR:1998) as Deputy Inspector General in Central Industrial Security Force (CISF) in Pay Band-4 Rs. 37,400—67000/- with Grade Pay of Rs. 8,900/- on deputation basis for a period of five years with effect from the forenoon of 25.02.2016.

Sd/- ILLEGIBLE
DIRECTOR GENERAL/CISF

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(BUREAU OF CIVIL AVIATION SECURITY)

New Delhi, the 25th September 2014

No. A-12018/7/2010-Admn.—On the basis of the recommendation of Union Public Service Commission (UPSC), the President is please to appoint the following officer of Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) as Assistant

Commissioner of Security (Civil Aviation) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates mentioned under column 4 against their names indicated in the table below:-

S.No.	Name	Method	Date of Appointment
1.	Shri R.K. Senapati	Deputation for 3 years from assumption of charge.	23.09.2013 (F.N)
2.	Capt. Ashutosh Vashist	Re-employment	07.10.2013 (F.N)
3.	Shri Gurvinder Singh	Deputation for 3 years from assumption of charge.	30.10.2013 (F.N)
4.	Shri S.M.F. Rahman	Deputation for 3 years from assumption of charge.	21.11.2013 (F.N)

RAKHEE SADHU
Dy. Director (Pers.)

No. A-32016/5/2009-Admn.—The president is pleased to promote the following Assistant Commissioner of Security (Civil Aviation) of Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) as Deputy Commissioner of Security (Civil Aviation) in the pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- + special pay of Rs. 2,000/- with effect from the dates mentioned against their name:

S.No.	Name of the Officers S/Sh.	Effective Date
1.	Sanjay Sharma	19.09.2013
2.	M.T. Baig	26.05.2014

RAKHEE SADHU
Dy. Director (Pers.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 25th February 2016

No. PD/2(8)/2015-R-IV/2484—The President is pleased to appoint Shri Vikas Shambhunath Kurariya as Technical Officer (C) in the Pay of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- Grade Pay in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st February, 2016 until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Deputy Establishment Officer

The 29th February 2016

No. PD/7(6)/2015-R-IV(SO/E)/ETG/2518—The President is pleased to appoint Dr. Malaya Kumar Nayak, Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in pay band PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade pay Rs. 6,600/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/ Engineer Grade 'E' in the pay band PB-3 Rs.15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of 1st July, 2014 in an officiating capacity, until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

Mumbai-85, the 3rd March 2016

No. PD/4(6)/2007-R-III(Vol.II)/2016/2697—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Virander Hiranand Gur, Stenographer Grade – I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from forenoon of 01.02.2016 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- in this Research Centre until further orders

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 3rd March 2016

No. AEC-1(1)/16/3093—In partial modification to this Department's notification No. AEC-1(1)/15/14902 dated November 2, 2015, notifying the constitution of the Atomic Energy Commission (AEC), the President is pleased to appoint Shri K.N. Vyas, Director, Bhabha Atomic Research Centre and Shri Vinod Kumar Thakral, Special Secretary & Financial Adviser, Department of Fertilizers as new Members of AEC with effect from March 2, 2016.

The constitution of the AEC for the remaining period of the year 2016 would thus be as follows:

- | | | |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | Dr. Sekhar Basu
Secretary to the Government of India
Department of Atomic Energy | Chairman (ex-officio) |
| 2. | Shri Nripendra Misra
Principal Secretary to the Prime Minister | Member |
| 3. | Shri Ajit Kumar Doval
National Security Advisor | Member |
| 4. | Shri Pradeep Kumar Sinha
Cabinet Secretary | Member |
| 5. | Dr. S. Jaishankar
Foreign Secretary | Member |
| 6. | Shri Ratan P. Watal
Finance Secretary & Secretary (Expenditure) | Member |
| 7. | Shri Vinod Kumar Thakral
Special Secretary & Financial Adviser,
Department of Fertilizers | Member for Finance |
| 8. | Dr. M.R. Srinivasan
Former Chairman, AEC | Member |
| 9. | Prof. P. Rama Rao
Former Secretary, Dept. of Science & Technology | Member |
| 10. | Dr. Anil Kakodkar
Former Chairman, AEC | Member |
| 11. | Dr. R.B. Grover
DAE Homi Bhabha Chair Professor | Member |
| 12. | Dr. K. Kasturirangan,
Former Chairman, Space Commission &
Former Member, Planning Commission | Member |
| 13. | Shri K.N. Vyas
Director, Bhabha Atomic Research Centre | Member |

ARUN SRIVASTAVA
Secretary to the Atomic Energy Commission

Mumbai-400 001, the 2nd March 2016

No. 6(2722)/2016-Adm/3052—Additional Secretary, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri M. N. Shaju, Assistant Personnel Officer [Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay Rs. 4,800/-], BARCF, Kalpakkam, as Section Officer [Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay Rs. 4,800/-], in DAE, Mumbai with effect from the forenoon of 15th February, 2016.

K.P.S PILLAI
Under Secy.

The 3rd March 2016

No. 6(2171)/95-Adm/3110—The President is pleased to appoint Shri A.B Patel, Private Secretary (PB-3 Rs.15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/-), Department of Atomic Energy, Mumbai as Principal Private Secretary (PB-3 Rs.15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-), in the same Department with effect from the forenoon of 10th February, 2016 until further orders.

K.P.S PILLAI
Under Secy.

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400 094, the 18th February 2016

No. DCSEM/A/3(2450)/2016-Rectt./175—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Smt. Mini Vinod, Assistant Security Officer (B), BARC, Mumbai as Security Officer in this Directorate in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- from the forenoon of 22/01/2016 until further orders.

B. JAGAN MOHAN RAO
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 24th February 2016

No. HWB/R/1(15)-Manuguru/2016/1101—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri V. Vivekanandan, Assistant Accounts Officer (Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/-) Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam to officiate as Accounts Officer in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 5th February, 2016 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of LLP Rules 2009 and of the following LLPs

New Delhi-110019, the 4th March 2016

No. ROC(Delhi)/SEPT/Rule 37(3)Publ./15481—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of the thirty days from the date hereof, the name of the following LLPs unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved.

SL No.	CIN	LLP-NAME
1	AAB-6939	WELCURE LIFE SCIENCE
2	AAB-8813	GLOBAL VENTIS
3	AAB-7294	NIMBLE BRAINS TRAINING
4	AAB-7447	BUSICON INFOTEK
5	AAB-9342	MODELAMA FASHIONS
6	AAC-0953	VMS EDUNET
7	AAB-8481	WE-ZIEL MANAGEMENT SERVICES
8	AAB-9306	DOORBELL TECH SERVES
9	AAB-9031	INDO RAMA RENEWABLES VASPETH

SL No.	CIN	LLP-NAME
10	AAB-0003	CRAFTBUZZAAR HANDMADE DESIGNS
11	AAA-0289	DELHI HOLY DAY RESORTS
12	AAA-5213	MAGNATE BUSINESS VENTURES
13	AAA-5462	CARKHANA AUTOMOTIVE BUSINESS SOLUTIONS
14	AAA-6019	GREENTREE PRODUCTS SERVICES
15	AAA-7488	NISWEY DIGITAL MARKETING
16	AAA-7511	EXTREME ARENA SOUTH CAMPUS
17	AAA-5882	ACADEMY FOR IT PROFESSIONALS
18	AAA-5655	SENSEX FINCAP SOLUTIONS
19	AAA-6009	INTRANET NETWORKS SOLUTIONS
20	AAA-4856	MTCANVAS SOLUTIONS
21	AAA-7741	CHOCOLATE HAAT INDIA
22	AAA-9093	ACCESS EDUBOOKS INDIA
23	AAA-2219	KITE CONSULTING
24	AAA-5326	TRINITY SOLANGE INTERNATIONAL
25	AAA-0560	ONESTOP TEACHERS PLACEMENT SERVICES
26	AAA-8662	YASHA WEARS
27	AAA-2023	EVERSHINE STONEVILLA
28	AAA-6326	HERCULES SOFTWARE SOLUTIONS
29	AAA-9319	ADDUCO TRADERS
30	AAA-0483	LUTHRA LUTHRA LAW OFFICES
31	AAA-6967	PING CREATIVE TECH
32	AAA-6124	NYSAA TREADS
33	AAA-3104	ALLIED NANOTECHNOLOGIES UNIVERSAL
34	AAA-3723	A M MINDPOWER SOLUTIONS
35	AAA-4589	MAAS ARCHITECTS
36	AAB-0025	DIVERSE HOTELS
37	AAB-0212	LES EDUTOURS TRAVEL INTERNATIONAL
38	AAB-0321	ANSH ADVISORY PARTNERS
39	AAB-0364	PI DUCTS
40	AAB-2327	SPARK MINERALS SERVICES
41	AAB-3400	AKS INFRAMART CONSULTING

SL No.	CIN	LLP-NAME
42	AAB-3604	SAARANYA HOSPITALITY
43	AAB-4050	INDIGLOBE CORPORATE SOLUTIONS
44	AAB-4459	DHIRANI ENGINEERING
45	AAB-6183	DECISION ANALYTICS LABS
46	AAB-6777	NEW TECH REFRIGERATION
47	AAA-4394	TULIP EXIM CORPORATION LLP
48	AAB-6102	SUDEV INFOTECH LLP
49	AAA-5053	CZAR LIMOUSINE SERVICES LLP
50	AAA-8625	MEDITRAIN PHARMA BUSINESS SCHOOL LLP
51	AAB-0895	MAMMOSCREEN INDIA LLP
52	AAB-7531	PARIS CONFECTIONERY LLP
53	AAA-0179	PI CREATIVE DESIGN STUDIO LLP
54	AAA-8208	GEEKS SUPPORT IT SERVICES LLP
55	AAC-1682	WEALTH ASIA ADVISORY SERVICES LLP
56	AAA-6871	RSB PORTFOLIO ADVISORS LLP

TIANILA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies:-

Chandigarh, the 29th February, 2016

No. ROC/560(5) FTE/2013.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S. No.	Company No.	Name of Company
1.	19708	Sarabjit Cold Storage Limited.
2.	32613	Varun Technical & Consultancy Services Limited
3.	26680	Kabra Impex Limited
4.	33596	Tress 'N' Tan Ventures Private Limited
5.	26766	Jessica Resorts Private Limited
6.	31127	Swami Parmanand Consignment Agents Private Limited
7.	16553	M M Financial Consultants Limited
8.	37506	Prime Cuisines Private Limited
9.	37070	Queens College Private Limited
10.	30993	Madox Funds Private Limited
11.	33677	Mudra Fincare Services Private Limited

S. No.	Company No.	Name of Company
12.	35097	S & S Envirotech Private Limited
13.	19836	Kaseriaji Cold Storage Private Limited
14.	34998	GIC Standards & Technology Private Limited
15.	31911	Fantastic Web Solutions Private Limited
16.	33118	Right Track Entertainments Private Limited
17.	29464	Green Channel Resorts Private Limited
18.	34029	Bio Age Life Sciences Private Limited
19.	34578	Ultimate Spirits Private Limited
20.	30957	K. P. Township and Colonisers Private Limited
21.	34316	Chromo Summit Research Private Limited

Sd/- ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of Companies,
Punjab & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Gwalior, the 1st March 2016

Companies Struck Off in Registrar of Companies, Madhya Pradesh Gwalior

S.No	CIN	COMPANY NAME
1	U63023MP1982PTC001924	STORAGE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2	U63020MP2013PTC030941	CHAMBERSBURG FOOD AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
3	U72200MP2012PTC029019	MOLLE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4	U52590MP2011PTC025164	ONJET MARKETING PRIVATE LIMITED
5	U72200MP2013PTC031110	Prebinding IT Solutions Private Limited
6	U80301MP2008PTC021436	VIZIGUNO EDUCOM PRIVATE LIMITED
7	U80211MP1998PTC013211	SHEETU EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
8	U28129MP2007PTC019806	PRAKASH CLOSURES PRIVATE LIMITED
9	U45200MP2007PTC019625	SADHANA ALIA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
10	U67120MP2009PTC021498	M.P. CURRENCY AND DERIVATIVES PRIVATE LIMITED
11	U92190MP2008PTC020811	OM SHANTI ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
12	U74140MP2002PTC014926	KAUTILYA STRATEGIES PRIVATE LIMITED
13	U01222MP1998PTC013071	SIMRAN CHICKS PRIVATE LIMITED
14	U24233MP2007PTC019573	AYU MART PRIVATE LIMITED
15	U52590MP2011PTC026259	REACT MULTI LEVEL MARKETING PRIVATE LIMITED
16	U27200MP2008PLC020714	SR FERRO (JHABUA) LIMITED

S.No	CIN	COMPANY NAME
17	U15400MP2011PTC027131	G LIFE FOODS & MARKETING PRIVATE LIMITED
18	U63020MP2011PTC027298	SAFFRON WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
19	U52590MP2011PTC025190	DEVYANI MARKETING PRIVATE LIMITED
20	U45200MP2013PTC030844	Shine Star Infra Solutions Private Limited
21	U74120MP2014PTC032580	MKSB INFOSERVICES CONSULTING PRIVATE LIMITED
22	U27101MP1986PTC003475	RATLAM FERRO ALLOYS PVT LTD
23	U22120MP2010PTC024906	PRIME INDIA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
24	U22120MP2011PTC027157	G LIFE MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
25	U24233MP2011PTC027078	ISHWARI LIFESCIENCE PRIVATE LIMITED
26	U45200MP2013PTC030761	TCK INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED
27	U01403MP2012PTC028294	Shaad Agro Private Limited
28	U70101MP2012PTC027694	Pakiza Builders Private Limited
29	U52599MP2012PTC029719	PINNACLE TRADERS PRIVATE LIMITED
30	U45400MP2014PTC032567	AV LUXURIA DEV & COLONISER PRIVATE LIMITED
31	U74999MP2012PTC027950	Seven Creations Education & Services Private Limited
32	U52599MP2013PTC031198	ANJALI TRADE WINGS PRIVATE LIMITED
33	U15310MP2010PTC023380	SHREEHARIJEE AGROTECH PRIVATE LIMITED
34	U24233MP2001PTC014518	DEEPA HERBALS PRIVATE LIMITED
35	U27203MP2011PTC025142	RADHEY ALUMINIUM PRIVATE LIMITED
36	U27203MP2011PTC025141	DIVINE ALUMINIUM PRIVATE LIMITED
37	U70100MP2011PTC025699	SUPER DEVCON & LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
38	U74200MP2012PTC028316	ASPUITE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
39	U72900MP2008PTC021467	ANANT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
40	U70100MP2010PTC024712	Satpura Infratech Private Limited
41	U80300MP2011PTC025568	TMJ EDUCATION PRIVATE LIMITED
42	U52310MP2008PTC020290	TARU PHARMA PRIVATE LIMITED
43	U93000MP2007PTC033254	A-1 Specialized Services & Supplies (India) Private Limited
44	U92100MP2012PTC027766	LENARD CABLE AND MEDIA PRIVATE LIMITED
45	U72200MP2008PTC020980	KAMAL INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
46	U22210MP2009PTC021631	ACCUPRINT OFFSET PRIVATE LIMITED
47	U74140MP2008PTC020299	Colonel's Corporate Management Services Private Limited
48	U52599MP2002PTC015259	GAGAN MARKETING PRIVATE LIMITED

S.No	CIN	COMPANY NAME
49	U24232MP2003PTC015534	PHARMA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
50	U32100MP2013PTC030568	TRIVEDI RESURFACING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
51	U05110MP1988PTC004790	SAURABH MERCHANDISE PVT LTD
52	U01403MP2013PTC030469	JAIN SEEDS PRIVATE LIMITED
53	U24230MP2015PTC034071	SANSKAR AYURVEDA PRODUCT PRIVATE LIMITED
54	U45200MP2012PTC028455	BAJRANG MULTI DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
55	U16003MP1981PTC001882	DULARA TOBACCO PRODUCTS PRIVATE LIMITED

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Registrar of Companies,
Madhya Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bilaspur, the 3rd March 2016

No. ROC/Rule 37(4)/LLP/2016—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 that the name of the following Limited Liability Partnership (LLP) has this day been struck off from the Register and the said Limited Liability Partnership (LLP) are dissolved:-

S.No.	LLP No.	Name of the LLP
1	3027	M/s Shree Jagdamba Solar Energy LLP
2	0293	M/s DINESH REALCON LLP
3	3207	M/s JAGDAMBA ENERGY LLP
4	2910	M/s KUMAR ECO POWER LLP
5	8166	M/s MH COAL BENEFICATION LLP
6	3182	M/s SHIVNATH ENERGY LLP
7	0445	M/s SHREE JAGDAMBA MINERAL RESOURCES LLP
8	2918	M/s VINAY GREEN ENERGY LLP
9	0240	M/s VRINDAVAN REALCON LLP
10	3000	M/s YAMUNA URJA LLP

Sd/- ILLEGIBLE
Registrar of Companies -cum-
Official Liquidator, Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. MANGOLA FILMS PRODUCTION PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 26th February 2016

Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. MANGOLA FILMS PRODUCTION PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Kolkata, the 29th February 2016

No. ROC/WB/FTE/560/2016 —Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved.

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U60231WB2012PTC181209	PETUNIA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
2	U72400WB2002PTC094449	RDSPLASH COMPUTER PRIVATE LIMITED
3	U74999WB2012PTC183365	DEVKRIPA SHOPPERS PRIVATE LIMITED
4	U74999WB2012PTC184617	BDG HERBALS PRIVATE LIMITED
5	U80901WB2013PTC196559	QUARK SKILL DEVELOPMENT INSTITUTE PRIVATE LIMITED
6	U70109WB2012PTC182793	SGK PROPERTIES PRIVATE LIMITED
7	U29253WB2012PTC180357	BREATHEPURE EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
8	U24232WB1993PTC058645	PRASAD PHARMACEUTICALS & SURGICAL WORKS RESEARCH PVT LTD
9	U52190WB2012PTC175430	PANCHKOTI AGENCY PRIVATE LIMITED
10	U51909WB2010PTC144200	ALIVE SALES PRIVATE LIMITED
11	U74900WB2013PTC195100	PARIVESH DEALMARK PRIVATE LIMITED
12	U51101WB2009PTC131970	GRACE DEALERS PRIVATE LIMITED
13	U51101WB2010PTC144207	SURYA COMMOTRADE PRIVATE LIMITED
14	U33111WB2014PTC201758	KAMALATMIKA ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
15	U45400WB2011PTC163371	GREENCITY INFRABUILD PRIVATE LIMITED
16	U92412WB2014PTC201320	ABSOLUT EVENTS PRIVATE LIMITED
17	U70102WB2013PLC193341	DUBCHURURIA CITY PROJECTS LIMITED
18	U65923WB2011PLC164816	GOUTI INVESTMENT LIMITED
19	U27310WB2011PTC166186	MAHAVIR SYNERGY ISPAT PRIVATE LIMITED
20	U70101WB1988PTC045024	BRINDAWAN HOUSING PVT LTD
21	U80302WB2008PTC123393	BENGAL TRAINING ACADEMY PRIVATE LIMITED
22	U51420WB2004PTC098885	NEWTECH COMTRADE PRIVATE LIMITED
23	U45200WB2013PTC193017	L.K.R REALCON PRIVATE LIMITED
24	U63022WB2003PTC096502	B J MULTIPURPOSE HIMGHAR PRIVATE LIMITED
25	U74900WB2013PTC196193	NETCALL INFOTECH PRIVATE LIMITED
26	U45400WB2012PTC183978	EVER RISE BUILDWELL PRIVATE LIMITED
27	U45400WB2012PTC174250	GANESHVANI HEIGHTS PRIVATE LIMITED
28	U51909WB2009PTC139316	JHANKAR DEALERS PRIVATE LIMITED
29	U51909WB1997PTC085285	PRIDE COMMERCE PRIVATE LIMITED
30	U51909WB2009PTC133684	TOPSTAR DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
31	U74900WB2012PTC187734	EKAKSH FASHIONS PRIVATE LIMITED
32	U74910WB2010PTC154714	BLUE ROSE MANPOWER & SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	Name of the Company
33	U70102WB2013PLC192513	FAITH REALCON INDIA DOMESTIC COMPANY LIMITED
34	U51909WB2010PTC143139	BHOLANATH TRADELINKS PRIVATE LIMITED
35	U51909WB2008PTC126945	SEABIRD MARKETING PRIVATE LIMITED
36	U70102WB2013PTC193873	PNS DEVCON PRIVATE LIMITED
37	U45201WB2005PTC103994	UNICON TOWERS PRIVATE LIMITED
38	U70102WB2013PTC190518	RADKO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
39	U72200WB2005PTC104648	ODYSSEY OUTSOURCING PRIVATE LIMITED
40	U74900WB2013PTC194917	NORMANS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
41	U67200WB2007PTC119720	UNITED SERVICELINK INSURANCE PRIVATE LIMITED
42	U45400WB2013PTC196303	JANMBHUMI NIRMAN PRIVATE LIMITED
43	U74999WB2012PTC185040	NIRVAANAM COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
44	U74999WB2012PTC185042	RAVILOCHANAH VANIJYA PRIVATE LIMITED
45	U45400WB2013PTC196304	MAINAK REALTORS PRIVATE LIMITED
46	U74900WB2012PTC186781	PRAANADAH DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
47	U36911WB1996PTC079495	GARUDA CHAINS PVT LTD
48	U74999WB2012PTC185041	PRAMODANAH GOODS PRIVATE LIMITED
49	U60230WB2011PTC158143	CEDARWOODS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
50	U27107WB2007PTC112477	RADHIKA METALLURGICALS PRIVATE LIMITED
51	U13100WB2012PTC184017	ABT MINING PRIVATE LIMITED
52	U51909WB2006PTC112223	UNIQUE EMPORIUM PRIVATE LIMITED
53	U05004WB1994PTC066260	UNIQUE AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
54	U70109WB2011PLC170244	AASTHA REALDEV (INDIA) LIMITED
55	U40103WB2009PLC137066	ELEDIAN ENERGY LIMITED
56	U51109WB2008PLC127001	FAREAST OVERSEAS LIMITED
57	U45400WB2011PTC161330	KLC HOMES PRIVATE LIMITED
58	U74140WB1946PTC013659	INDUSTRIAL IMPORTERS PVT LTD
59	U18109WB2013PTC197457	TINKURINKU DRESSES PRIVATE LIMITED
60	U14101WB2006PTC110908	DIMENSIONAL CONCRETE PRIVATE LIMITED
61	U63023WB1988PTC044855	MUNGIPA LIFTERS AND WAREHOUSERS PVT LTD
62	U72900WB2008PTC130127	EVIKA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
63	U51909WB2011PTC167578	FAIRLINK VANIJYA PRIVATE LIMITED
64	U51909WB2011PTC165517	GANGADHAM COMMODEAL PRIVATE LIMITED
65	U51909WB2011PTC165518	JATADHARI VINTRADE PRIVATE LIMITED
66	U51909WB2011PTC166682	PANCHBOOT MERCANTILE PRIVATE LIMITED
67	U51909WB2011PTC167580	MAXWELL VINIMAY PRIVATE LIMITED
68	U51909WB2011PTC165521	KARNIMATA VINIMAY PRIVATE LIMITED
69	U51909WB2011PTC166120	PRISTINE MERCHANDISE PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	Name of the Company
70	U45400WB2013PTC196127	TM PROJECTS PRIVATE LIMITED
71	U28112WB2011PTC156526	NAVRATAN EXIM PRIVATE LIMITED
72	U51909WB2007PTC114643	GUJRAL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
73	U51909WB2012PTC179721	ANUNECT TRADELINK PRIVATE LIMITED
74	U24295WB1991PTC051890	MYRIAD TECHNO PVT LTD
75	U30008WB1988PTC044255	TASS ELECTRONICS PVT LTD
76	U27310WB2009PTC138395	BRITENERGY INDIA PRIVATE LIMITED
77	U72300WB2014PTC202787	DAIPFOL COMPU SYSTEMS PRIVATE LIMITED
78	U22219WB1952PTC020708	KALPANA PRESS PVT LTD
79	U74140WB1982PTC035061	PEEKAY MANAGERMENTS PVT LTD
80	U45203WB2007PTC113275	HAPPY MULTICON PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

BANGALORE, the 1st March 2016

NO. ROC/560/(5) FTE – NOTICE IS GIVEN PURSUANT TO SUB – SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAME OF THE UNDER MENTIONED COMPANIES HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED:-

SL. No.	CIN	NAME OF THE COMPANY
1.	U72200KA2006PTC040843	DECIDYN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2.	U40300KA2012PTC065081	BISILUMANE ENERGY PRIVATE LIMITED
3.	U55100KA2008PTC048552	MANOR HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
4.	U45202KA2012PTC063277	GAHLOTH ENGINEERING AND POWER PRIVATE LIMITED
5.	U45205KA2012PTC063333	BMN BUILDERS & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
6.	U72200KA2007PTC043939	Core Intent Software Solutions Private Limited

KEERTHI THEJ N.
Deputy Registrar of Companies
Karnataka

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in